



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 18] नई दिल्ली, अगस्त 10—अगस्त 16, 2003, शनिवार/श्रावण 19—श्रावण 25, 1925
No. 18] NEW DELHI, AUGUST 10—AUGUST 16, 2003, SATURDAY/SRAVANA 19—SRAVANA 25, 1925

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2003

का०नि०आ० 99.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि जनरल आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, मध्य कमान द्वारा मेजर वीर सिंह का त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने के कारण छावनी बोर्ड, पचमढ़ी में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है।

[फा०सं० 19/52/पचमढ़ी/सी/डीई/2001/2881/डी (क्यू एण्ड सी)]

डी० आर० मेहरा, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 4th August, 2003

S.R.O. 99.—In pursuance of Sub-Section (7) of Section 13 of the Cantonment Act, 1924 (2 of 1924) the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board, Pachmarhi by reasons of acceptance by the General Officer Commanding-in-Chief, Central Command of resignation of Maj. Vir Singh.

[F. No. 19/52/Pachmarhi/C/DE/2001/2881/D (Q&C)]

D.R. MEHRA, Under Secy.

2207 GI/2003

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2003

का०नि०आ० 100.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि स्टेशन कमांडर पचमढ़ी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (च) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ले. कर्नल कुलदीप शर्मा को छावनी बोर्ड, पचमढ़ी का सदस्य मनोनीत किया है। यह मनोनयन मेजर वीर सिंह के स्थान पर किया गया है जिनका त्यागपत्र स्वीकृत हो चुका है।

[फा. सं. 19/52/पचमढ़ी/सी/डीई/2001/2881/डी (क्यू एण्ड सी)]

डी. आर. मेहरा, अवर सचिव

New Delhi, the 4th August, 2003

S.R.O. 100.—In pursuance of Sub-Section (7) of Section 13 of the Cantonment Act, 1924 (2 of 1924) the Central Government hereby notifies that Lt. Col. Kuldeep Sharma has been nominated as a member of the Cantonment Board, Pachmarhi by the Station Commander, Pachmarhi in exercise of the powers conferred under clause (e) of Sub-Section (3) of Section 13 of that Act vice Maj. Vir Singh whose resignation has been accepted.

[F. No. 19/52/Pachmarhi/C/DE/2001/2881/D (Q&C)]

D.R. MEHRA, Under Secy.

(409)

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2003

का०नि०आ० 101.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा मंत्रालय, भारतीय वायुसेना कनिष्ठ अनुवादक (हिन्दी) भर्ती नियम, 1994 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय भारतीय वायुसेना कनिष्ठ अनुवादक (हिन्दी) भर्ती (संशोधन) नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा मंत्रालय, भारतीय वायुसेना, कनिष्ठ अनुवादक (हिन्दी) भर्ती नियम, 1994 की विद्यमान अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी अर्थात् :—

अनुसूची

1.	पद का नाम	:	कनिष्ठ अनुवादक (हिन्दी)
2.	पदों की संख्या	:	20* (2003) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
3.	वर्गीकरण	:	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित अनुसूचित अर्थात्
4.	वेतनमान	:	5000-150-8000 रु०
5.	चयन सह ज्येष्ठता या योग्यता के आधार पर चयन अथवा अचयन	:	लागू नहीं होता
6.	सेवा में जोड़े गये वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	:	नहीं
7.	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये आयु सीमा	:	25 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक और अन्य पिछड़े वर्गों की दशा में 42 वर्ष तक की जा सकती है)।
8.	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हतायें	:	टिप्पण : -आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)। आवश्यक : स्नातक स्तर पर हिन्दी/अंग्रेजी अनिवार्य और वैकल्पिक विषय के साथ अंग्रेजी/हिन्दी में स्नातकोत्तर डिग्री

या

स्नातक स्तर पर हिन्दी/अंग्रेजी अनिवार्य और वैकल्पिक विषय के साथ अंग्रेजी/हिन्दी मुख्य विषय (जिसमें अनिवार्य और वैकल्पिक शब्द शामिल हैं)।

टिप्पण : अनुभव सम्बन्धी अर्हता (अर्हतायें) सक्षम प्राधिकारी/कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी/चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिये आरक्षित पदों को भरने के लिये अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

9. सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित आयु और शैक्षिक अर्हतायें प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं। : नहीं
10. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो। : सीधे भर्ती किये गये व्यक्तियों के लिये दो वर्ष।
11. भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता। : प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।
12. प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा। : प्रोन्नति : भारतीय वायुसेना का ऐसा सिविलियन अनुदेशक, जिसने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है।
टिप्पणी : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु वह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, उससे कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।
प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण
केन्द्रीय सरकार के उन अधिकारियों में से जो—
(क) (1) समकक्ष पदों पर कार्यरत हों, या
(2) 4000-100-6000 रु० या इसके समकक्ष वेतनमान वाले पदों पर हों और उस ग्रेड में आठ वर्ष की नियमित सेवा हो चुकी हो, और
(ख) उनके पास सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए कालम 8 में निर्धारित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं हों। (प्रतिनियुक्ति की अवधि इस नियुक्ति के तत्काल पहले उसी संगठन/विभाग में किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि समेत सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन पत्र मंगाने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
13. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना : प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे :—
1. निदेशक (कार्मिक सिविलियन)/वायुसेना मुख्यालय—अध्यक्ष
2. प्रधान हिन्दी अधिकारी, वायुसेना मुख्यालय —सदस्य
3. सहायक निदेशक कार्मिक (सिविलियन), (विभागीय प्रोन्नति समिति अनुभाग), वायुसेना मुख्यालय —सदस्य
14. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा। : लागू नहीं होता।

[फा. सं. वायुसेना मुख्यालय/23049/जूनियर/आर.आर./पी.सी.-3/571/रक्षा (नि.)]

बी.ए. चावड़ा, अवर सचिव

टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र में, का.नि.आ. सं. 37 तारीख 18 फरवरी, 1994 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 17th July, 2003

// S.R.O. 101.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, President hereby makes the following rules further to amend the Ministry of Defence, Indian Air Force Junior Translator (Hindi) Recruitment Rules, 1994, namely :—

1. (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Indian Air Force Junior Translator (Hindi) Recruitment (Amendment) Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Defence, Indian Air Force Junior Translator (Hindi) Recruitment Rules, 1994, for Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely :—

SCHEDULE

1. Name of post	: Junior Translator (Hindi)
2. Number of posts	: 20* (2003) *Subject to variation dependent on workload.
3. Classification	: General, Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial, Non-Industrial.
4. Scale of pay	: Rs. 5000-150-8000
5. Whether selection-cum-seniority or selection by merit or Non-selection post	: Not applicable
6. Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	: No
7. Age limit for direct recruits	: Not exceeding 25 years. (Relaxable for government servants upto the age of 40 years in the case of General Candidates, 45 years in the case of Candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and 42 years in the case of candidates belonging to other backward classes). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir state, Lahaul and Spiti Districts and Pangri sub division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).
8. Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential : Master's degree in English/Hindi with Hindi/English as a compulsory subject at degree level. OR Bachelor's Degree with Hindi and English as main subject (which includes the term compulsory and elective). Note : The qualifications regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Competent Authority/Staff Selection Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Competent Authority/Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.
9. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	: No
10. Period of probation, if any	: Two years for direct recruits
11. Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.	: By promotion failing which by deputation/absorption and failing both by direct recruitment.

12. In case of recruitment, by promotion/ deputation/absorption, grade from which promotion/deputation/absorption to be made : **Promotion :**
Civilian Education Instructor of Indian Air Force with eight years' regular service in the grade.
Note : Where juniors who have completed their qualifying eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.
Deputation/Absorption :
From amongst Central Government Officers holding :—
(a)(i) analogous posts;
or
(ii) posts in the pay scale of Rs. 4000-100-6000 or equivalent with eight years regular service in the grade; and
(b) possessing educational and other qualifications laid down in Column 8 for direct recruits. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years). The maximum age limit for appointment on deputation shall not exceed 56 years as on the closing date for receipt of applications.
13. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition? : **Group 'C' Departmental Promotion Committee :**
1. Director (Personnel Civilian), Air Headquarters — Chairman
2. Principal Hindi Officer, Air Headquarters — Member
3. Assistant Director Personnel (Civilian) (Departmental Promotion Committee Section), Air Headquarters — Member
14. Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment : Not applicable

[F. No. Air HQ/23049/Junior/RR/PC-3/571/D (Appts.)]

V. A. CHAVDA, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India vide number S.R.O. 37 dated the 18th February, 1994.

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2003

का. नि. आ. 102.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सेना सेवा कोर (केन्द्रीय सिविल) (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1978 को जहाँ तक उनका संबंध ज्येष्ठ प्रयोगशाला सहायक से है सिवाय उन बातों के अधिकांश करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण गति से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, सेना सेवा कोर में ज्येष्ठ प्रयोगशाला सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सेना सेवा कोर (केन्द्रीय सिविल) (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं और उससे सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त/उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना, अपेक्षित है।

अनुसूची

1. पद का नाम	: ज्येष्ठ प्रयोगशाला सहायक
2. पदों की संख्या	: 20* (2002) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
3. वर्गीकरण	: केन्द्रीय सिविल सेवा समूह "ग", अराजपत्रित, अननुसचिवीय अनौद्योगिक
4. वेतनमान	: 5000—8000 रु.
5. चयन-सह-ज्येष्ठता या योग्यता के आधार पर चयन	: अचयन
6. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा अचयन	: 25 वर्ष से अनधिक (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिलनीय) टिप्पणी : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।
7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	: रसायन भौतिकी और गणित या रसायन वनस्पति और प्राणी विज्ञान सहित विज्ञान में स्नातक। वांछनीय : खाद्य निरीक्षण संगठन में या खाद्य या लोक स्वास्थ्य प्रयोगशाला में तीन वर्ष का अनुभव।
8. सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	: नहीं
9. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	: नहीं
10. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	: दो वर्ष
11. भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	: सीधे भर्ती
12. प्रोन्नति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/आमेलन किया जाएगा	: लागू नहीं होता

13. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना :
1. अभिलेख भारसाधक अधिकारी (प्रदाय) या यांत्रिक यातायात —अध्यक्ष
 2. ज्येष्ठ अभिलेख अधिकारी, सेना सेवा कोर अभिलेख (प्रदाय) —सदस्य
 3. ज्येष्ठ अभिलेख अधिकारी, सेना सेवा कोर अभिलेख (यांत्रिक यातायात) —सदस्य
 4. उप सहायक निदेशक, प्रदाय और परिवहन/एस टी-12 (निदेशक, प्रदाय और परिवहन के प्रतिनिधि) —सदस्य
 5. उप सहायक क्वार्टर मास्टर जनरल ओ आई सी (क्वार्टर मास्टर जनरल का प्रतिनिधि) —सदस्य
 6. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक अधिकारी जो मेजर की पंक्ति के नीचे न हो —सदस्य
14. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा : लागू नहीं होता

[फा. सं. एम एफ वी/57341/समूह 'ग'/आर आर/क्यू/एस टी-8/190/रक्षा (नि.)]

वी. ए. चावडा, अवर सचिव

New Delhi, the 1st August, 2003

S.R.O. 102.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India and in supersession of the Army Service Corps (Central Civil Group 'C' Posts), Recruitment Rules, 1978, in so far as they relate to the post of Senior Laboratory Assistant except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Laboratory Assistant in Army Service Corps namely :—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Army Service Corps (Central Civil Group 'C' Posts), Recruitment Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of said posts, its classifications and scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule hereto annexed.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications.— The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Qualifications.— No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedients to do to, it may by order and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings.—Nothing in this rule shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1. Name of post	: Senior Laboratory Assistant
2. Number of post	: 20* (2002)
	*Subject to variation dependent on workload.
3. Classification	: Central Civil Services, Group 'C' Non-Gazetted, (Non-Ministerial, Non-Industrial)
4. Scale of pay	: Rs. 5000—8000

5. Whether Selection-cum-Seniority or Selection by Merit : Non-selection
6. Age limit for direct recruitment : Not exceeding 25 years (Relaxable for Government servants in accordance with orders/instructions issued by the Central Govt.).
Note 1 : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).
Note 2 : In respect of posts, the appointment to which are made through the Employment Exchanges the crucial date for determining the age limit will in each case be the last date up to which the Employment Exchanges are asked to submit the names.
7. Educational and other qualifications required for direct recruits : B.Sc. with Chemistry, Physics and Mathematics or Chemistry, Botany and Zoology.
Desirable : Three years experience in Food Inspection Organisation or in Food or Public Health Laboratory.
8. Whether benefit of added years of service admissible under Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 : No
9. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees : No
10. Period of probation, if any : Two years
11. Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods. : Direct recruitment
12. In case of recruitment by promotion/absorption, grades from which promotion/absorption is to be made : Not applicable
13. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition : 1. Officer-in-Charge Records (Supply) or Mechanical Transport —Chairman
2. Senior Records Officer, Army Service Corps Records (Supply) —Member
3. Senior Records Officer, Army Service Corps Records (Mechanical Transport) —Member
4. Deputy Assistant Director of Supplies and Transport/ST-12 (Director of Supplies and Transport's Representative). —Member
5. Deputy Assistant Quartermaster General OIC (Quartermaster General's Representative) —Member
6. An officer of a Scheduled Castes or Scheduled Tribes not below the rank of Major. —Member
14. Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment. : Not applicable.

[F. No. MF B/57341/Gp C/RR/Q/ST-8/190/D(Appts.)]

V. A. CHAVDA, Under Secy.

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2003

का. नि. आ. 103.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (उपाचार्य) भर्ती नियम, 1988 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में उपाचार्य पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (उपाचार्य) समूह 'क' भर्ती नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसके वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है

अनुसूची

1. 1. पद का नाम	: उपाचार्य
2. पदों की संख्या	: 25 * (2003) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
3. वर्गीकरण	: साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क", राजपत्रित, अननुसूचितवीय
4. वेतनमान	: 12000-420-18300 रु. और 150 रु. राष्ट्रीय रक्षा अकादमी विशेष भत्ता प्रतिमाह
5. चयन योग्यता या चयन-सह-स्पष्टता के आधार पर अथवा अचयन पद	: लागू नहीं होता
6. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	: 45 वर्ष से अधिक नहीं टिप्पण 1 : केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)
7. सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	: हां

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं : आवश्यक :
- अच्छे शैक्षिक अभिलेखों के साथ डाक्टरेट डिग्री या संबंधित विषय में समतुल्य प्रकाशन कार्य।*
 - ऐसे अभ्यर्थी जो विश्वविद्यालय पद्धति से बाहर के हैं और जिन्होंने कम से कम 55% अंक प्राप्त किए हैं या बी समतुल्य श्रेणी 7 बिन्दुमान पर और अगली श्रेणी मास्टर डिग्री स्तर में ओ, ए, बी, सी, डी, जी, ई और एफ रखता हो जो अभ्यर्थी विश्वविद्यालय पद्धति में हैं, के मास्टर लेवल में 55% स्थान पर 50% अंक है।
 - पांच वर्ष का अध्यापन का अनुभव और/या अनुसंधान डिग्री प्राप्त करने में व्यतीत समय को छोड़कर अनुसंधान में ली अवधि।
 - शैक्षिक नवाचार नये पाठ्यक्रमों का परिरूप और पाठ्यक्रम तथा प्रकाशन कार्य में योगदान।
- टिप्पण 1 : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।
- टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।
- *टिप्पण 3 : प्रत्येक भर्ती के समय संबंधित विषय इंगित किया जाये।
9. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं : लागू नहीं होता
10. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो : दो वर्ष
11. भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता : सीधी भर्ती द्वारा
- टिप्पण : एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति, या अस्वस्थता अध्ययन अवकाश या अन्य किसी परिस्थितियों के कारण पदधारी द्वारा की गई रिक्तता को केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकेगा :—
- (क)(i) मूलकाडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण करता है; या
 - (ii) मूलकाडर/विभाग में 10000—15200 रु वेतनमान या समतुल्य वेतनमान में नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और
 - (ख) सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तंभ 8 के अधीन विहित शैक्षिक अर्हता और अनुभव।
12. प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा : लागू नहीं होता
13. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना : समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (परिवीक्षा को हटाने के लिए/पुष्टि के संबंध में) :—
- संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय —अध्यक्ष
 - अपर महानिदेशक, सैन्य प्रशिक्षण, सेना मुख्यालय —सदस्य
14. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा : संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. ए.-46153/भ.नि./उपाचार्य/जी.एस./एम.टी.-7/347/रक्षा (नि.)]

बी. ए. चावड़ा, अवर सचिव

New Delhi, the 31st July, 2003

S. R. O. 103.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the National Defence Academy (Reader) Recruitment Rules, 1988, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the academic post of Readers in the National Defence Academy, namely :—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the National Defence Academy (Readers) group 'A' Post Recruitment Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.— The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. Disqualification.— No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1. Name of the post	: Reader
2. Number of posts	: 25* (2003)
	*Subject to variation dependent on workload.
3. Classification	: General Central Services Group 'A' Gazetted (Non-Ministerial)
4. Scale of pay	: Rs. 12000-420-18300 plus Rs. 150 PM 'NDA Special Allowance'
5. Whether selection-cum-Seniority or Selection by Merit	: Not Applicable
6. Age limit for direct recruitment	: Not exceeding 45 years.
	Note 1 : (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Govt.).
	Note 2 : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub-Division of Chamb District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).
7. Whether benefit of added years of service admissible	: Yes
8. Educational and other qualifications required for direct recruits	: Essential :
	(i) Good academic record with a Doctoral degree or equivalent published work in the concerned subject.*

(ii) Candidates who join from outside the University system, shall also possess at least 55% of the marks or an equivalent grade of B in the 7 point scale with letter grades, O, A, B, C, D, E & F at the Master's Degree level. For candidates already in University system 50% of marks at Master's level.

(iii) Five years of experience of teaching and/or research excluding the period spent for obtaining the research degrees.

(iv) Contribution to educational innovation, design of new courses and curricula and published works.

Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.

Note 2 : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill in the vacancies reserved for them.

***Note 3 :** The concerned subject to be indicated at the time of each recruitment.

- | | |
|--|--|
| 9. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | : Not applicable |
| 10. Period of probation, if any | : Two years |
| 11. Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods. | : Direct recruitment
Note : Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or illness or study leave under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government : —
(a)(i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; or
(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 10000-15200 or equivalent in the parent Cadre/department; and
(b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column 8. |
| 12. In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made | : Not applicable |
| 13. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition | : Group 'A' Departmental Promotion Committee (for removal from Probation/Confirmation) consisting of :
(a) Joint Secretary, Ministry of Defence —Chairman
(b) Addl. Director General Military Training, Army Headquarters —Member |
| 14. Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment | : Selection on each occasion shall be made in consultation with Union Public Service Commission. |

[F. No. A-46153/RR/Reader/GS/MT-7/347/D(Apptts.)]

V.A. CHAVDA, Under Secy.